

# गुजराती अभिनेता ने आय लव यू बोलकर ठीक कर लिया अपना कैंसर



अहमदाबाद । अर्चन त्रिवेदी के साथ प्यार के तीन शब्दों ने चमत्कार कर दिया । कम से कम त्रिवेदी तो यही मानते हैं । अर्चन त्रिवेदी का कहना है कि उन्होंने प्यार के तीन शब्दों 'आई लव यू' की मदद से अपना ब्लड और लंग्स का कैंसर ठीक कर डाला । कैंसर से पीड़ित होने के बाद उन्होंने जिससे भी बात की उसकी शुरुआत 'आई लव यू' से की । त्रिवेदी का कहना है कि लाखों बार बोले गए 'आई लव यू' ने किसी जादू की तरह उनका कैंसर ठीक कर दिया ।

50 साल के अर्चन त्रिवेदी फोन पर भी जब किसी से बात करते हैं तो उसकी शुरुआत प्यार के इन्हीं तीन शब्दों से करते हैं । अर्चन से जब पूछा गया कि जब वे किसी महिला से आई लव यू बोलते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया मिलती है । अर्चन कहते हैं कि जब आप किसी को दिल से 'आई लव यू' कहते हैं तो उसे सभी पसंद करते हैं ।

त्रिवेदी ने बताया कि 1990 के दशक में जब वे अपने धारावाहिक 'गुनहगार' की शूटिंग कर रहे थे तो अचानक बीमार पड़ गए । जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है । त्रिवेदी ने बताया कि इलाज कराने की बजाय उन्होंने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मन बना लिया ।

इसी दौरान उन्हें प्यार के इन तीन शब्दों की ताकत का अहसास हुआ । त्रिवेदी का दावा है कि अब वे ठीक हो चुके हैं । इसके बावजूद अब भी जब वे किसी से बात करते हैं तो इसकी शुरुआत इन्हीं तीन शब्दों से करते हैं ।

जब त्रिवेदी को कैंसर हुआ तो गुजरात सरकार के कला संस्कृति विभाग ने इलाज के लिए उन्हें 40 हजार रुपए की सहायता भी दी । लेकिन जब वे ठीक हो गए तो उन्होंने पैसा वापस लौटाना चाहा ।

त्रिवेदी ने बताया कि ऐसा करने का कोई नियम ही नहीं था । इसके बाद उन्होंने अपने इलाज के लिए मिली रकम को शहर के एक कैंसर अस्पताल को दान दे दी ।

साभार- टाईम्स ऑफ इंडिया से